

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रस्ताधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1975/पीव 16, 1897

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1975/PAUSA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जानी है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1975

S.O. 27(E).—Whereas the Government of Assam have intimated a few alterations in the extent of territorial divisions in the State or inadvertent slip or omission in the description of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 36 of 15th February, 1975, in respect of the State of Assam;

And, whereas, the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and in the Appendix to the said Order so as to bring the Order correct and up-to-date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Table B—Assembly Constituencies—

- (i) Under column 2, against 4-Karimganj South, in the description of the extent of the constituency, after the words "excluding", the words "Karimganj town and" shall be *inserted*;
- (ii) Under column 2, against '10. Sonai', in description of the extent of the constituency for the existing entry, the entry "Sonai thana [excluding circle Nos. 32 (Part), 65, 66, Noaligrant in circle No. 54 (Part) and Hill Punjee and forest villages] and circle Nos. 28 to 31 and 35 in Silchar thana and circle No. 58 (Part) in Dholai thana in Silchar sub-division." shall be *substituted*.

- (iii) Under column 2, against '11. Dholai (SC)', in the description of the extent of the constituency ~~for the existing entry~~, the entry "Dholai thana [excluding circle No. 58 (Part)], circle Nos. 65, 66 and Hill Punjee and Forest villages in Sonai thana and circle Nos. 25, 26 and Clever House T.E. in Circle No. 27 (Part) and forest villages in Silchar thana, in Silchar sub-division." shall be substituted;
- (iv) Under column 2, against '12-Udharbond', in the description of the extent of the constituency ~~for the existing entry~~, the entry "Udharbond thana and circle Nos. 32 (Part) and 33 in Silchar thana and circle Nos. 44, 45 and 46 in Lakhimpur thana and circle No. 32 (Part) in Sonai thana in Silchar sub-division." shall be substituted;
- (v) Under column 2, against '13-Lakhimpur', in the description of the extent of the constituency ~~for the existing entry~~, the entry "Lakhimpur thana (excluding circle Nos. 44, 45 and 46) and Boaligant in circle No. 54 (Part) in Sonai thana in Silchar sub-division." shall be substituted;
- (vi) Under column 2, against 23-Dhubri, in the description of the extent of the constituency, ~~after the word "excluding"~~, the words "Gauripur town Committee and" shall be inserted;
- (vii) Under column 2, against 27-Bilasipara East, in the description of the extent of the constituency, ~~after the word "excluding"~~, the words "Sapatgram town Committee and" shall be inserted;
- (viii) Under column 2, against '121-Chabua', in the description of the extent of the constituency, ~~after the words 'Chabua Thana'~~, the words "and Ghorbondi (Part) mouza in Tinsukia thana (Part)" shall be inserted;
- II. In the Note, for the words and figures '1st day of February, 1975', the words and figures "1st day of August, 1975" shall be substituted;
- III. In the Appendix to the said Order:—
- (i) In item (1), ~~after the entry 274. Usharani T.E.~~, the entry "277-Chorgola Valley T.E." shall be inserted;
- (ii) In item (2), ~~for the village "39-Islampur" read "39-Ilashpur"~~;
- (iii) In item (4), ~~for the village "261-Ratanpur Part II" read "261-Ratanpur (Seki-kanishail)"~~;
- (iv) In item (14), ~~after the entry '239-Dankinamari'~~, the entry "240-Khujrabguri" shall be inserted; and
- (v) In item (17)—
- (a) the village "47-Gheramari Pt. II" shall be deleted;
- (b) ~~for the village "82-Kalarchara" read "82-Katarithara"~~; and
- (c) ~~after the village '143-Kaltapur'~~, the village "143A-Falimari" shall be inserted.

[No. 282/AS/75]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1975

का० प्रा० 27 (अ).—प्रसम राज्य सरकार ने, प्रसम राज्य के प्रादेशिक खण्डों के विस्तार में कुछ परिवर्तन और उस राज्य के सम्बन्ध में परिमिमत आयोग के तारीख 15 फरवरी, 1975 के प्रादेश सं० 36 को सारणी-ख में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या त्रुटि संशोधित की है :

और, निर्वाचन आयोग उक्त प्रादेश को ठीक और अद्वयतन करने के लिए उन निर्वाचन क्षेत्रों के वर्णन में और उक्त प्रादेश के परिशिष्ट में संशोधन करना, आवश्यक और समीचीन समझता है ;

प्रतः, अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आवेदन में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है :—

1. सारणी-ख— सभा निर्वाचन क्षेत्र में :—

- (i) स्तम्भ 2 के नीचे 4—करीमगंज दक्षिण के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में “परिशिष्ट की मद (3)” कोष्ठक एवं शब्दों के स्थान पर “करीमगंज नगर और परिशिष्ट की मद (3)” कोष्ठक एवं शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) स्तम्भ 2 के नीचे, 10—सोनाई के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “सिल्वर उपखण्ड में सोनाई थाना [सकिल सं० 32 (भाग), 65, 66 सकिल सं० 54 (भाग) में नोग्रालिग्रंट तथा हिल पंजी एवं बन ग्रामों को छोड़कर] तथा सिल्वर थाने के सकिल सं० 28 से 31 तक और 35 तथा धोलाई थाने का सकिल सं० 58 (भाग)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) स्तम्भ 2 के नीचे ‘11—धोलाई (ग्र० जा०)’ के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “सिल्वर उपखण्ड में धोलाई थाना [सकिल सं० 58 (भाग) को छोड़ कर], सोनाई थाना के सकिल सं० 65, 66 और हिल पंजी एवं बन ग्राम तथा सिल्वर थाना के सकिल सं० 25, 26 और सकिल सं० 27 (भाग) में क्लेवर हाउस टी० ई० एवं बन ग्राम ।” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) स्तम्भ 2 के नीचे, ‘12—उधरबोर्ड’ के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “सिल्वर उपखण्ड में, उधरबोर्ड थाना और सिल्वर थाने की सकिल सं० 32 (भाग) और 33 और लखिपुर थाना के सकिल सं० 44, 45 एवं 46 तथा सोनाई थाने का सकिल सं० 32 (भाग)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) स्तम्भ 2 के नीचे ‘13—लखिपुर’ के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “सिल्वर उपखण्ड में लखिपुर थाना (सकिल सं० 44, 45 तथा 46 को छोड़ कर) और सोनाई थाने का सकिल सं० 54 (भाग) में नोग्रालिग्रंट ।” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vi) स्तम्भ 2 के नीचे, ‘23—घुशी’ के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, “परिशिष्ट” शब्द से पहले “गोरौर नगर समिति और” शब्द जोड़ दिये जाएंगे ;
- (vii) स्तम्भ 2 के नीचे, 27—विलसिपारा पूर्व के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार वर्णन में, “परिशिष्ट” शब्द से पहले, “सप्तग्राम नगर समिति और,” शब्द जोड़ दिए जाएंगे ;
- (viii) स्तम्भ 2 के नीचे, ‘121—ठाडुग्रा’ के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, ‘ठाडुग्रा थाना’ शब्दों के बाद, “और तिनसुकिया थाने (भाग) का घोरबोन्डी (भाग) मीजा” शब्द जोड़ दिए जाएंगे ;

II. टिप्पण में, “1975 के फरवरी मास के प्रथम दिन” शब्दों व अंकों के स्थान पर “1975 के अग्रस्त मास के प्रथम दिन” शब्द व अंक रखे जाएंगे ;

III उक्त आदेश के परिशिष्ट में —

- (i) मद (1) में, 274-उषारानी टी० ई० प्रविष्टि के बाब "277-चोरगोला बैली टी० ई०" प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी ;
- (ii) मद (2) में, "39-इसलामपुर" के स्थान पर "39-इलाहापुर" पढ़े ।
- (iii) मद (4) में, "261-रतनपुर भाग-दो" ग्राम के स्थान पर "261-रतनपुर (सिकिकाशील)" पढ़े ;
- (iv) मद (14) में, "239-दानकिनामारी" प्रविष्टि के बाब "240-खुजराबगुरी" प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी ; और
- (v) मद (17) में—
 - (क) "47-बेरामरी भाग दो" ग्राम हटा दिया जाएगा ;
 - (ख) "82-कलारीहारा" ग्राम के स्थान पर, "82-फटारीहारा" पढ़े ।
 - (ग) "143-काल्टापुर" ग्राम के बाब "143क-फालीमारी" ग्राम जोड़ दिया जाएगा ।

[स० 282/1/असम/75].

आदेश से,

बी० नागसुब्रह्मण्यन, सचिव :